

**B.Sc. 2nd Year (2024-2025)**

**1st CCE**

**(Major ii / Minor / open Elective)**

**Paper Name: Electrostatics,Magnetostatics & Electrodynamics**

**Subject : Physics**

**Note : Last date to submit this CCE is 25 nov. 2024**

**QUESTION 1(MCQ)**

**1) The polar molecule is (ध्रुवीय अणु हैं):**

- A) H
- A) N
- B)  $\text{H}_2\text{O}$
- C)  $\text{O}_2$

**2)  $\text{H}_2\text{O}$  molecule is (  $\text{H}_2\text{O}$  अणु है):**

- A) Non polar(अध्रुवीय)
- B) Polar(ध्रुवीय)
- C) Neutral (उदासीन )
- D) Alkaline(क्षारीय)

**3) Kirchhoff's current law is based on (किरचॉफ का धारा नियम आधारित है):**

- A) Conservation of charge (आवेश संरक्षण पर )
- B) Conservation of mass(द्रव्यमान संरक्षण पर)
- C) Conservation of current (धारा संरक्षण पर)
- D) Conservation of momentum(संवेग संरक्षण पर )

**4) The unit of magnetic flux is :**

- A) Debye
  - B) Henry
  - C) Weber
  - D) Rutherford
- 5) Ampere's law tells the value of:

- A) The circulation of magnetic field
- B) Divergence of magnetic field.
- C) Flux of magnetic field
- D) Flux of density

### **QUESTION 2.(Short answer type questions):**

- 1) Write coulomb's law acting between two point charges (दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला कूलॉम का नियम लिखिए)
- 2) Define current and current density. write about the relationship between them. (धारा एवं धारा घनत्व को परिभाषित करें। उनके बीच के रिश्ते के बारे में लिखें)

### **QUESTION 3. (Long answer type questions):**

- 1) Write Biot-savart's law. derive it (बायोट-सावर्ट का नियम लिखिए। इसे प्राप्त कीजिए)
- 2) Write and prove Kirchoff's laws. (किरचॉफ के नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिये )

